

STUDDS ACCESSORIES LIMITED

REGD. AND CORP. OFF.: PLOT NO. 918, SECTOR-68 IMT
FARIDABAD-121004, HARYANA (INDIA)

PHONE: 91-129-4296500

E mail: secretarial@studds.com; info@studds.com

CIN No.: U25208HR1983PLC015135

Date: November 28, 2025

To, National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051	To, BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai- 400001
NSE Scrip Symbol: STUDDS	BSE Scrip Code: 544599

Subject: Newspaper Publication-Disclosure under Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”)

Dear Sir/ Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 and Part A of Schedule III of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 and Regulation 47 and any other applicable provisions of the said Regulations, please find the enclosed copies of the Newspaper Publications in connection with the unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2025 as approved in the Board Meeting of the Company held on Wednesday, November 26, 2025. The advertisements are published in Financial Express (English)- All India edition and Jansatta (Hindi)-Delhi Edition, today on November 28, 2025.

The aforesaid Financial Results and newspaper publications thereon are also hosted on the website of the Company at www.studds.com under Investor Relations' Section.

This is for your information and records.

Thanking You,

FOR STUDDS ACCESSORIES LIMITED

ASHA MITTAL
Company Secretary and Compliance Officer





STUDDS ACCESSORIES LIMITED

CIN: U25208HR1983PLC015135

Registered and Corporate Office: Plot No. 918, Sector 68, IMT, Faridabad - 121004
Phone No.: 91-129-4296500 | Website: www.studds.com | E-mail: secretarial@studds.com

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025

The Board of Directors of the Company, at its meeting held on November 26, 2025, approved the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2025.

You can view the complete financial results along with Limited Review Reports by scanning this QR code or by visiting the website of Stock Exchange(s) - BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com) and on the Company's website at: www.studds.com.



By order of the Board
For STUDDS ACCESSORIES LIMITED
Sd/-
Sidhartha Bhushan Khurana
Managing Director
DIN: 00172788

Place : Faridabad
Dated : November 27, 2025

Note: The above intimation is in accordance with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

U. P. Power Corporation Ltd.

IT Unit, 5th Floor, Shakti Bhawan Ext., Lucknow-226001
Email: etender itunit@uppcl.org

Notice inviting Tender Date: 27-11-2025
e-Bids are invited from interested bidders against E-tender No. 03/IT/UPPCL/WhatsApp, RCS and Chatbot Solutions /2025 Dated 27.11.2025 for Engagement of an Agency for Providing WhatsApp Business API, RCS Services and Chatbot Solutions for UPPCL/Discoms. Tender can be downloaded from UP e-tender portal https://etender.up.nic.in for further details. Any changes, corrigendum etc. shall also be notified on the website. UPPCL reserves the right to reject any or all proposals or cancel the bid without assigning any reason thereof.

पत्रक- 26-ज.स./पाकालि./ज.स./2025 दिनांक 27.11.2025

Xchanging Solutions Limited



Registered Office : HP Avenue, 39/40, Electronic City
Hosur Main Road, Bengaluru - 560 100, Karnataka, India
CIN: L72200KA2002PLC030072
Tel.: +91 80 6972 9602

Email: xchangingcompliance@dxcc.com Website: www.dxc.com

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGE OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

In accordance with SEBI Circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, shareholders of Xchanging Solutions Limited are hereby informed that a special window has been opened from July 7, 2025 to January 6, 2026 for re-lodgement of transfer request for physical shares.

This facility is available for transfer deeds prior to April 01, 2019 and which were rejected, returned or not attended due to deficiencies in documents/process/or otherwise.

Shareholders who have missed the earlier deadline of March 31, 2021 can avail this opportunity by furnishing the necessary documents to our Registrar and Share Transfer Agent at the earliest along with the requisite documents:

Kfin Technologies Limited
Unit: Xchanging Solutions Limited, Selenium Tower-B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad - 500 032, Telangana.
Email: einward.ris@kfinfintech.com

The Company's website has already updated with these details regarding the opening of this special window and further updates, if any shall be uploaded therein.

For Xchanging Solutions Limited

Place: Gurugram Sd/-
Date: November 27, 2025 Radhika Khurana
Company Secretary & Compliance Officer

...continued from previous page.

This Offer was made in terms of Rule 19(2)(b) of the SCRR read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The Offer was made through the Book Building Process and is in compliance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations wherein in terms of Regulation 32(1) of the SEBI ICDR Regulations, not more than 50% of the Offer was available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs"), and such portion, the "QIB Portion" provided that our Company, in consultation with the BRLMs, allocated 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion") of which at least one-third was available for allocation to domestic Mutual Funds, subject to valid Bids having been received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares could have been added to the QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion was available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds and the remainder of the QIB Portion was available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders (other than Anchor Investors) including Mutual Funds, subject to valid Bids having been received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds was less than 5% of the QIB Portion, the balance Equity Shares was available for allocation in the Mutual Fund Portion would have been added to the remaining QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Offer was available for allocation to Non-Institutional Bidders out of which (a) one-third of such portion was reserved for applicants with application size of more than ₹0.20 million and up to ₹1.00 million; and (b) two-third of such portion was reserved for applicants with application size of more than ₹1.00 million, provided that the unsubscribed portion in either of such sub-categories could have been allocated to applicants in the other sub-category of Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Offer was available for allocation to Retail Individual Bidders ("RIBs") in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Retail Portion"), subject to valid Bids having been received from them at or above the Offer Price. Further all Bidders (except Anchor Investors) were required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective bank accounts (including UPI ID for UPI Bidders using UPI Mechanism) (as defined hereinafter) in which the Bid amount were blocked by the SCSBs or the Sponsor Banks, as applicable, to participate in the Offer. Anchor Investors were not permitted to participate in the Anchor Investor Portion of the Offer through the ASBA process. For details, see "Offer Procedure" on page 493 of the Prospectus.

The bidding for Anchor Investors opened and closed on Thursday, November 20, 2025. The Company received 25 applications from 18 Anchor Investors (including 13 domestic Mutual Funds through 20 Mutual Fund schemes) for 4,660,275 Equity Shares. The Anchor Investor Offer Price was finalized at ₹593 per Equity Share. A total of 4,527,823 Equity Shares were allocated under the Anchor Investor Portion aggregating to ₹2,684,999,039.00.

The Offer received 2,998,159 applications for 995,556,725 Equity Shares (prior to rejections) resulting in 65,9626 times subscription as disclosed in the Prospectus. The details of the applications received in the Offer from Retail Individual Bidders, Non-Institutional Bidders and QIBs are as under (before rejections):

Sr. No.	Category	No. of Applications received	No. of Equity Shares applied	No. of Equity Shares Reserved As Per Prospectus	No. of times Subscribed	Amount (₹)
A	Retail Individual Bidders	2,713,847	83,177,225	5,282,463	15,7459	49,323,363,325.00
B	Non-Institutional Bidders – More than ₹2 lakhs and upto ₹10 lakhs	166,493	61,201,650	754,637	81,1008	36,290,784,775.00
C	Non-Institutional Bidders – More than ₹10 lakhs	117,594	204,630,350	1,509,276	135,5818	121,344,693,500.00
D	Qualified Institutional Bidders (excluding Anchor Investors)	200	641,887,225	3,018,550	212,6475	380,639,124,425.00
E	Anchor Investors	25	4,660,275	4,527,823	1,0293	2,763,543,075.00
Total		2,998,159	995,556,725	15,092,749	65,9626	590,361,509,100.00

Final Demand

A summary of the final demand as per BSE and NSE as on the Bid/Offer Closing Date at different Bid prices is as under:

Sr. No	Bid Price (₹)	No. of Equity Shares	% to Total	Cumulative Total	Cumulative % of Total
1	563	251,375	0.02	251,375	0.02
2	564	8,025	0.00	259,400	0.03
3	565	18,575	0.00	277,975	0.03
4	566	1,300	0.00	279,275	0.03
5	567	1,575	0.00	280,850	0.03
6	568	2,100	0.00	282,950	0.03
7	569	1,700	0.00	284,650	0.03
8	570	34,775	0.00	319,425	0.03
9	571	3,550	0.00	322,975	0.03
10	572	4,250	0.00	327,225	0.03
11	573	18,475	0.00	345,700	0.03
12	574	1,750	0.00	347,450	0.03
13	575	22,400	0.00	369,850	0.04
14	576	950	0.00	370,800	0.04
15	577	46,350	0.00	417,150	0.04
16	578	8,075	0.00	425,225	0.04
17	579	1,425	0.00	426,650	0.04
18	580	46,025	0.00	472,675	0.05
19	581	1,225	0.00	473,900	0.05
20	582	5,225	0.00	479,125	0.05
21	583	19,850	0.00	498,975	0.05
22	584	350	0.00	499,325	0.05
23	585	21,875	0.00	521,200	0.05
24	586	1,025	0.00	522,225	0.05
25	587	1,325	0.00	523,550	0.05
26	588	4,475	0.00	528,025	0.05
27	589	5,725	0.00	533,750	0.05
28	590	53,425	0.01	587,175	0.06
29	591	116,275	0.01	703,450	0.07
30	592	154,625	0.02	858,075	0.09
31	593	929,673,675	92.12	930,531,750	92.21
32	CUT-OFF	78,662,675	7.79	1,009,194,425	100.00
Total		1,009,194,425	100.00		

The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange, being NSE on November 26, 2025.

A. Allotment to Retail Individual Bidders (After Rejections) (including ASBA Applications)

The Basis of Allotment to the Retail Individual Bidders, who have bid at Cut-Off Price or at the Offer Price of ₹593 per Equity Share, was finalized in consultation with NSE. This category has been subscribed to the extent of 15,1353 times. The total number of Equity Shares Allotted in Retail Individual Bidders category is 5,282,463 Equity Shares to 211,298 successful applicants. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No	Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Bidder	Ratio	Total No. of Equity Shares allotted
1	25	2,408,452	92.42	60,211,300	75.31	25	3:37	4,882,200
2	50	101,268	3.89	5,063,400	6.33	25	3:37	205,275
3	75	30,915	1.19	2,318,625	2.90	25	3:37	62,675
4	100	17,942	0.69	1,794,200	2.24	25	3:37	36,375
5	125	10,671	0.41	1,333,875	1.67	25	3:37	21,625
6	150	6,043	0.23	906,450	1.13	25	3:37	12,250
7	175	4,844	0.19	847,700	1.06	25	3:37	9,825
8	200	2,881	0.11	576,200	0.72	25	3:37	5,825
9	225	1,389	0.05	312,525	0.39	25	3:37	2,825
10	250	4,143	0.16	1,035,750	1.30	25	3:37	8,400
11	275	1,041	0.04	286,275	0.36	25	3:37	2,100
12	300	1,542	0.06	462,600	0.58	25	3:37	3,125
13	325	14,777	0.57	4,802,525	6.01	25	3:37	29,950
16010 Allottees from Serial no 2 to 13 Additional 1 (one) share						1	13:16010	13
Total		2,605,908	100.00	79,951,425	100.00			5,282,463

B. Allotment to Non-Institutional Bidders (more than ₹0.20 million and up to ₹1.00 million) (After Rejections) (including ASBA Applications)

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Bidders (more than ₹0.20 million and up to ₹1.00 million), who have bid at the Offer Price of ₹593 per Equity Share or above, was finalized in consultation with NSE. This category has been subscribed to the extent of ₹7,2729 times. The total number of Equity Shares allotted in this category is 754,637 Equity Shares to 2,156 successful applicants. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under (sample):


Sr. No	Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares applied	% to Total	No. of Equity Shares allotted per applicant	Ratio	Total No. of Equity Shares allotted
1	350	153634	94.35	53,771,900	89.89	350	2:151	711,900
2	375	1929	1.18	723,375	1.21	350	26:1929	9,100
3	400	804	0.49	321,600	0.54	350	11:804	3,850
4	425	371	0.23	157,675	0.26	350	5:371	1,750
5	450	366	0.22	164,700	0.28	350	5:366	1,750
6	475	133	0.08	63,175	0.11	350	2:133	700
7	500	830	0.51	415,000	0.69	350	11:830	3,850
8	525	313	0.19	164,325	0.27	350	4:313	1,400
9	550	97	0.06	53,350	0.09	350	1:97	350
10	575	71	0.04	40,825	0.07	350	1:71	350
11	600	126	0.08	75,600	0.13	350	2:126	700
12	625	149	0.09	93,125	0.16	350	2:149	700
13	650	81	0.05	52,650	0.09	350	1:81	350
14	675	172	0.11	116,100	0.19	350	2:172	700
15	700	604	0.37	422,800	0.71	350	8:604	2,800
16	725	67	0.04	48,575	0.08	350	1:67	350
17	750	160	0.10	120,000	0.20	350	2:160	700
18	775	61	0.04	47,275	0.08	350	1:61	350
19	800	93	0.06	74,400	0.12	350	1:93	350
20	825	1415	0.87	1,167,375	1.95	350	19:1415	6,650

Sr. No	Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares applied	% to Total	No. of Equity Shares allotted per applicant	Ratio	Total No. of Equity Shares allotted
21	850	134	0.08	113,900	0.19	350	2:134	700
22	875	41	0.03	35,875	0.06	350	1:41	350
23	900	48	0.03	43,200	0.07	350	1:48	350
24	1,000	135	0.08	135,000	0.23	350	2:135	700
25	1,050	135	0.08	141,750	0.24	350	2:135	700
26	1,250	41	0.03	51,250	0.09	350	1:41	350
27	1,400	68	0.04	95,200	0.16	350	1:68	350
28	1,500	42	0.03	63,000	0.11	350	1:42	350
29	1,675	339	0.21	567,825	0.95	350	4:339	1,400
All applicants from Serial no 30 to 54 for 1 (one) lot of 350 shares						350	2:376	700
122 Allottees from Serial no 2 to 55 Additional 1 (one) share						1	37:122	37
Total		162,835	100.00	59,822,250	100.00			754,637

C. Allotment to Non-Institutional Bidders (more than ₹1.00 million) (After Rejections) (including ASBA Applications)

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Bidders (more than ₹1.00 million), who have bid at the Offer Price of ₹593 per Equity Share or above, was finalized in consultation with NSE. This category has been subscribed to the extent of 134,6361 times. The total number of Equity Shares allotted in this category is 1,509,276 Equity Shares to 4,312 successful applicants. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under: (Sample)

Sr. No	Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares applied	% to Total	No. of Equity Shares allotted per applicant	Ratio	Total No. of Equity Shares allotted
1	1,700	111602	95.57	189,723,400	93.37	350	13:352	1,442,350
2	1,725	1227	1.05	2,116,575	1.04	350	45:1227	15,750
3	1,750	1008	0.86	1,764,000	0.87	350	37:1008	12,950
4	1,775	344	0.29	610,600	0.30	350	13:344	4,550
5	1,800	499	0.43	898,200	0.44	350	18:499	6,300
6	1,825	70	0.06	127,750	0.06	350	3:70	1,050
7	1,850	90	0.08	166,500	0.08	350	3:90	1,050
8	1,875	106	0.09	198,750	0.10	350	4:106	1,400
9	1,900	45	0.04	85,500	0.04	350	2:45	700
10	1,925	21	0.02	40,425	0.02	350	1:21	350
11	1,950	52	0.04	101,400	0.05	350	2:52	700
12	1,975	18	0.02	35,550	0.02	350	1:18	350
13	2,000	127	0.11	254,000	0.13	350	5:127	1,750
14	2,025	92	0.08	186,300	0.09	350	3:92	1,050
15	2,050	48	0.04	98,400	0.05	350	2:48	700
16	2,100	51	0.04	107,100	0.05	350	2:51	700
17	2,125	36	0.03	76,500	0.04	350	1:36	350
18	2,150	36	0.03	77,400	0.04	350	1:36	350
19	2,200	18	0.02	39,600	0.02	350	1:18	350
20	2,250	32	0.03	72,000	0.04	350	1:32	350
21	2,300	21	0.02	48,300	0.02	350	1:21	350
22	2,350	17	0.01	39,950	0.02	350	1:17	350
23	2,400	16	0.01	38,400	0.02	350	1:16	350
24	2,500	99	0.08	247,500	0.12	350	4:99	1,400
25	2,525	24	0.02	60,600	0.03	350	1:24	350
26	2,550	25	0.02	63,750	0.03	350	1:25	350
27	2,575	36	0.03	92,700	0.05	350	1:36	350
28	2,700	19	0.02	51,300	0.03	350	1:19	350
29	2,825	18	0.02	50,850	0.03	350	1:18	350
30	2,875	15	0.01	43,125	0.02	350	1:15	350
31	3,000	15	0.01	45,000	0.02	350	1:15	350
32	3,100	14	0.01	43,400	0.02	350	1:14	350
33	3,125	22	0.02	68,750	0.03	350	1:22	350
34	3,325	16	0.01	53,200	0.03	350	1:16	350
35	3,375	24	0.02	81,000	0.04	350	1:24	350
36	3,400	148	0.13	503,200	0.25	350	5:148	1,750
37	3,500	31	0.03	108,500	0.05	350	1:31	350
38	3,675	16	0.01	58,800	0.03	350	1:16	350
39	3,925	14	0.01	54,950	0.03	350	1:14	350
40	4,675	16	0.01	74,800	0.04	350	1:16	350
41	4,825	15	0.01	72,375	0.04	350	1:15	350
42	5,000	18	0.02	90,000	0.04	350	1:18	350
43	5,100	21	0.02	107,100	0.05	350	1:21	350
44	6,175	16	0.01	98,800	0.05	350	1:16	350
All applicants from Serial no 45 to 242 for 1 (one) lot of 350 shares						350	15:579	5,250
4312 Allottees from Serial no 1 to 243 Additional 1(one) share						1	76:4312	76
	TOTAL	116,777	100.00	203,203,100	100.00			1,509,276



यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम

A Government of India Undertaking

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एसबी सरीफा मार्केट शाखा (30770)
पता: पोस्ट बॉक्स नं. 1578, एस.बी. सरीफा मार्केट चांदनी चौक,
नई दिल्ली-110006

ईमेल: ubin0530778@unionbankofindia.bank

[नियम - 8 (1)]
कब्जा सूचना (अव्यव सम्पत्ति हेतु)

परिशिष्ट-1

जमिन्, अधोदस्ताखरी में वित्तीय परिपक्वियों को प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (द्वितीय) अधिनियम 2002 (2002 का एक्ट सं. 54) के प्रवर्तन के अधीन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सरीफा मार्केट शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत उत्पारकर्ता :

- मेसर्स स्थाति सेंट्रल कॉर्पोरेशन, पता: 10872, पहली मंजिल, झंडेवाला रोड, नबी करीम, नई दिल्ली-110055
- श्री शीतेंद्र मिश्रा (प्रोपराइटर), पता: 10872, पहली मंजिल, झंडेवाला रोड, नबी करीम, नई दिल्ली-110055, और के-68, सेक्टर-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद, यू.पी. - 201009 को एक मांग सूचना दिनांक 28.08.2025 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु 37,94,685.90 (रु. सैंतीस लाख बीसहत्तर हजार छह सौ पचासी और पैंते नब्बे मात्र) उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उत्पारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिए एतद्वारा उत्पारकर्ता और गारंटर तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोदस्ताखरी में सुरक्षा हित प्रवर्तन के नियम 8 साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा दिनांक 27.11.2025 को ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतद्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान्य किया जाता है तथा सर्वाधिक के साथ कोई भी लेन भुगतान बैंक ऑफ इंडिया, के प्रभार वास्ते राशि रु 37,94,685.90 और मतिव्यय का ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उत्पारकर्ता का ध्यान एकद की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिपक्वियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

संपत्ति का विवरण

घल सम्पत्ति :

1. **वृत्तिबन्ध स्टॉक और बुक डेप्टस् जोकि युनिट-10872, प्रथम तल, झंडेवाला रोड, नबी करीम, नई दिल्ली-110055 में रखी है।**

अव्यव सम्पत्ति:

1. **सांख्यिक बंधक सम्पत्ति के - 68, सेक्टर-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद, यू.पी.-201009**
दिनांक: 28.11.2025, प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान: नई दिल्ली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्ररूप संख्या आईएनसी-26
(कंपनी (निगमन) दूसरा संशोधन नियम, 2017 के नियम 30 के अनुसार)

केन्द्र नगर, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 के मामलों में, धारा 13 के मामलों में

के मामले में और

अल्लार्ग ईंटीरियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U74200DL2010PTC0204188)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **182, जीजी1 विकासपुरी, नई दिल्ली-110018** में है, के मामलों में

....आवेक कंपनी/याचिकाकर्ता

एतद्वारा आम जनता को सूचना दी गई है कि अल्लार्ग ईंटीरियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के तहत माननीय क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली की कंपनी (निगमन) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 के नियम 30 के साथ पठित, और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, **सौमवार, 10 नवंबर, 2025** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष संकल्प के संघर्ष में कंपनी के एग्रीमेंटेशन द्वारा के खंड 11 में परिचलित के लिए पुष्टि / अनुमति की मांग करते हुए कंपनी को समझाने के लिए अपने मंजीकृत कागजात को **"एग्रीड राइजग्री सीट दिल्ली" से "हरियाणा राज्य"** में बदलने के लिए एक आदेशन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या वे निम्नलिखित निष्काप प्ररूप फाइल कर एप्लीक-21 पौलेंट (www.mca.gov.in) में शिकायत करने का प्रयास कर सकता है या एक शायब पत्र लिखने उम्मेद हित का प्रस्ताव और उसके विरुद्ध का कारण जल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 बिल्डिंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल उस्वादेय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रतियां प्राधिकृत अधिकारी को उसके पंजीकृत कार्यालय में नीचे उल्लिखित पते पर भेज सकता है:

अलनकीव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट संख्या 76-डी उद्योग विहार फेज-4, सेक्टर 18, गुडगांव, गुडगांव, हरियाणा-122001 (सर्वमान पता)

अलनकीव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से

स्थान: गुडगांव, हरियाणा
दिनांक: 27.11.2025

कठु रमन वोहरा
निदेशक
डीन- 09277072

अल्लार्ग ईंटीरियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हस्ता/—
सूचना धर्मा (निदेशक) की आधारित
स्थान: नई दिल्ली
जीआईएनए: 02001273



बैंक ऑफ बड़ोदा
Bank of Baroda

बैंक ऑफ बड़ोदा, रोसांब, प्रथम तल, एर्णाकुलम मुख्य शाखा, परलीमुक्कु एम जी रोड, एर्कुलुम
फोन : 0484-2360081, 8089565441

मोचन सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत सूचना

वित्तीय अस्त्वियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संरक्षणी अधिनियम, 2002) के प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8(6) के अंतर्गत सूचना।

सेवा में: (1) मेसर्स गोलदन आर्क प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय आरएमसी, फ्लैट ए2/1/एफ, तुंग नाम फेक्टरी बिल्डिंग, 40 मा लाऊ कोड रोड, टू क्वा वान, कॉन्डुन, हांगकांग में है, यह मेसर्स एरन्स गोल्लसुक इन्टरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसका प्रतिनिधित्व इसके अधिकृत हस्ताक्षरकों श्री विनोद कृष्ण नायक करते हैं, (2) मेसर्स एरन्स गोल्लसुक इन्टरनेशनल लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर 1, लोकल शॉपिंग सेंटर, शारदा निकेतन, पीतम्पुरा, नई दिल्ली-110034 में है, जिसका प्रतिनिधित्व इसके निवासी निदेशक श्री अबू बैकर करते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व गोल्ल सूक, ब्लॉक-सी, सेक्टर 43, सुर्याल लोक, फेज-1, गुडगांव 122002 में भी है, (3) श्री अभित गुप्ता, एरन्स विमल दीप कॉम्प्लेक्स, पीकेटी मॉल रोड D-11 के पीछे, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070

संदर्भ:- (1) संरक्षणी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत जारी दिनांक 07.10.2022 का मांग नोटिस और उसके बाद मांग नोटिस का प्रकाशन (2) संरक्षणी अधिनियम 2002 की धारा 13 (4) के तहत जारी दिनांक 02.12.2024 का कब्जा सूचना।

विम महोदय / महोदया,

बैंक ऑफ बड़ोदा, रोसांब, एर्णाकुलम, पलिमुक्कु एम जी रोड, एर्णाकुलम-682016 के प्राधिकृत अधिकारी से संरक्षणी अधिनियम 2002 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 (जिसे आगे "नियम" कहा जाएगा) के नियम 3 के साथ पठित, दिनांक 07.10.2022 का मांग नोटिस और उसके बाद का प्रकाशन जारी किया, जिसमें आग्रे उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर होने के नाते उक्त मांग नोटिस में बताई गई राशि उक्त नोटिस की प्राप्ति/प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर चुकाने का आदेशन किया गया।

और चौके आग्रे राशि चुकाने में विफल रहे हैं, सुरक्षित परिपक्वित्तियों (जिन्हें आगे उक्त संपत्तियां कहा जाएगा) का मौलिक कब्जा, जिसका विवरण रूप से नीचे अनुसूची में वर्णन किया गया है (जिसका प्राचीनत्व कब्जा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 16.10.2023 को लिया गया था), 02.12.2024 को संरक्षणी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत निम्नानु एडवोकेट कल्पन्दन द्वारा लिया गया और सुरक्षित लेनदार की ओर से प्राधिकृत अधिकारी को सौंप दिया गया और तत्पश्चात, प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

सुरक्षित परिपक्वित्तियों का कब्जा लेने के बाद भी आग्रे उपर्युक्त संपत्तियों को नुकसान में उल्लिखित बैंक को देय राशि का भुगतान नहीं किया है। आपका ध्यान सुरक्षित परिपक्वित्तियों को भुगतान के लिए उपलब्ध समय के संबंध में प्रारंभिक नोटिस 1020/05 के साथ धारा 13 की उपधारा (4) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि इस सूचना की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर कब्जे के नोटिस में उल्लिखित देय राशि, लागू ब्याज, लागू, शुल्क और अन्य सहित जमा करें और नीचे दिये गये, निदेशों के अनुसार सुरक्षित संपत्ति को मुक्त करें। यदि आप इस सूचना की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर उपर्युक्त देय राशि का भुगतान करने और सुरक्षित संपत्ति को मुक्त करने में विफल रहते हैं, तो बैंक ई-नीलामी बिक्री सूचना प्रकाशित करके सार्वजनिक ई-नीलामी में माध्यम से सुरक्षित संपत्ति को बेचने के लिये, बाध्य होगा। ई-नीलामी की तिथि, समय और संपत्ति का आदर्शिक मूल्या आगेके अलग से सूचित किया जायेगा।

सुरक्षित संपत्तियों/संपत्तियों की अनुसूची

अवयव संपत्तियों का विवरण	कब्जे की तिथि	कब्जे का प्रकार (प्राचीनत्वक/भौतिक)	कब्जे की सूचना के प्रकाशन तिथि (केवल अवयव संपत्ति के लिए)
(**) के अंतर्गत उल्लिखित	02.12.2024	भौतिक	08.12.2024

पदवीय, नाम: दीपक एस. प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ोदा, रोसांब एर्णाकुलम शाखा

निम्नलिखित: जिला: एर्णाकुलम, उपजिला मरुडू, तालुक, कनयनूर, गांव पुणितुल्य, देमय-योनकुलम, अय्यम: कोच्चि उप विभाग संख्या / Ares में विस्तार: 5363/28.91 Ares, 545/1-14.16 Ares, 545/3/0.617 Ares, 544/3/51.917 Ares, कुल विस्तार: 95.604 Ares, जनगणती के रूप में प्रदान किया गया अधिकार: अधिभाजित हिस्से का 2.869754, जो 2.7436 Ares के बराबर है, भूमि का विस्तार 95.604 Ares और नीचे उल्लिखित दुकानों है।

अवयव संपत्ति का विवरण: नीचे सूचीबद्ध दुकान के कमरे जिनका सुपर निर्मित क्षेत्रफल 2388.07 वर्ग मीटर (25705 वर्ग फीट) है, वाणिज्यिक परिसर में जिसे "गोल्ल सूक ग्रांड" के रूप में जाना जाता है, साथ ही थोथ अधिभाजित और भाररहित / थिना अलगवा वाली 2.869754 अधिभाजित हिस्सेदारों 2.7436 Ares के बराबर है जिसका विस्तार 95.604 Ares है, जिसमें 28.91 Ares सर्वे सं. संख्या 536/3 में, 14.16 Ares सर्वे सं. संख्या 545/1 में, 0.617 Ares सर्वे सं. संख्या 545/3 में और 51.917 Ares सर्वे सं. संख्या 544/3 में हैं, जो योन्कुलुपी देमय, पुणितुल्य गांव, कनयनूर तालुक, मरुडू उपजिला, एर्णाकुलम जिला में है। उधारकर्ता द्वारा दिनांक 19.11.2004 के डिक्कम विरोध के आधार पर प्राप्त किया गया, जो एसआरओ, एर्णाकुलम में दस्तावेज संख्या 6770/2004 के रूप में पंजीकृत है, दिनांक 22.02.2005 के डिक्कम विरोध को दस्तावेज संख्या 1019/05 के रूप में पंजीकृत किया गया है, दिनांक 22.02.2005 के डिक्कम विरोध को दस्तावेज संख्या 1020/05 के रूप से पंजीकृत किया गया है, दिनांक 23.02.2005 के डिक्कम विरोध को दस्तावेज संख्या 1030/05 के रूप में पंजीकृत किया गया है, दिनांक 14.01.2005 के डिक्कम विरोध को दस्तावेज संख्या 277 / 05 के रूप में पंजीकृत किया गया है, दिनांक 19.11.2004 के डिक्कम विरोध को एसआरओ, मरुडू एर्णाकुलम में दस्तावेज संख्या 5826/04 के रूप में पंजीकृत किया गया है।

क्र. सं.	कॉर्पोरेट द्वार क्रमांक	यूनिट क्रमांक	क्वोर	एरिया (वर्ग फुट में)	अधिभाजित शेयर	पूनाल कॉर्पोरेट क्रमांक
1	48/450	LG-ANK-11	निचला ग्राउंड	905	0.0966	30/1547 E11(11)
2	48/451	LG-ANK-12	निचला ग्राउंड	849	0.0906	30/1547 E11(12)
3	48/452	LG-ANK-12A	निचला ग्राउंड	843	0.0899	30/1547 E11(13)
4	48/455	LG-ANK-16	निचला ग्राउंड	1152	0.1229	30/1547 E11(16)
5	48/456	LG-ANK-17	निचला ग्राउंड	1236	0.1319	30/1547 E11(17)
6	48/457	LG-ANK-18	निचला ग्राउंड	1084	0.1157	30/1547 E11(18)
7	48/458	LG-ANK-19	निचला ग्राउंड	812	0.0866	30/1547 E11(19)
8	48/459	LG-ANK-20	निचला ग्राउंड	577	0.0615	30/1547 E11(20)
9	48/460	LG-ANK-21	निचला ग्राउंड	1128	0.1204	30/1547 E11(21)
10	48/301	Anchor-2	भूतल	6967	0.7439	30/1547 F 24
11	48/271	GSLG-25	निचला ग्राउंड	368	0.0392	30/1547 F 22
12	48/278	GS-001	भूतल	300	0.3202	30/1547 F 1
13	48/320.321	GS-101/102	प्रथम तल	3274	0.3495	30/1547 G1 & G2
14	48/394	Anchor-1	द्वितीय तल	3510	0.3747	30/1547 H 36

सीआरए: पूर्व: एनएच-47 कोचीन बाईपास, पश्चिम: चर्च की संपत्ति, उत्तर: माधवन की संपत्ति, दक्षिण: फालिमा की संपत्ति

प्रपत्र ए

सार्वजनिक उद्घोषणा

[भारतीय ऋणपोधनासमतता एवं दिवालिया बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिये ऋणशोधनासमतता समायोजन प्रक्रिया) नियमावली 2016 के विधियम 6 के अंतर्गत]

हनुंग फर्निचरिंग प्राइवेट लिमिटेड
(सीआईआरपी के अंतर्गत) के ऋणदाताओं के ध्यानार्थ

प्राचलिक विवरण

1. निगमित देनदार का नाम	हनुंग फर्निचरिंग प्राइवेट लिमिटेड
2. निगमित देनदार के निगमितकरण की तिथि	13/05/2002
3. निगमितकरण, जिसके अंतर्गत निगमित देनदार निगमितकृत / चर्जित हो	आरसीआई - दिल्ली
4. निगमित देनदार की निगमित पहचान सं. /	U17211DL2002PTC115344
5. निगमित देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	एच-384, पंचशील पार्क, नू तल, नई दिल्ली- 110017
6. निगमित देनदार के संबंध में ऋणशोधनासमतता आरंभ करने की तिथि	20-11-2025 (आईआरपी द्वारा आदेश प्राप्ति की तिथि : 25-11-2025)
7. ऋणशोधनासमतता समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न की अनुमति तिथि	19-05-2026
8. अंतिम सम्मान्य व्यवसायी के रूप में कार्यरत ऋणशोधनासमतता व्यवसायी का नाम तथा संबोधन संख्या	नाम : विमल कुमार संबोधन सं. : IBBI/PA-002/IP-N00995/2020-2021/13236
9. बैंड के साथ पंजीकृतानुसार, अंतिम सम्मान्य व्यवसायी का पता एवं ई-मेल	पता- बी 1104, रिडइज पार्क, सेक्टर 78, मेहता, उत्तर प्रदेश, 201801 ईमेल आईडी : maidvimal1@rediff.com
10. अंतिम सम्मान्य व्यवसायी के साथ पत्र-व्यवहार हेतु प्रयोग किए जाने के लिए पता एवं ई-मेल	संपत्ति पता : महेन्द्र रिटुक्मनियर सर्विसेज एलएलसी एच-376, पंचशील पार्क, नई दिल्ली- 110017 ईमेल : crip.hanung@gmail.com
11. दावा को जमा करने की अंतिम तिथि	09-12-2025
12. अंतिम सम्मान्य व्यवसायी द्वारा सुनिश्चिता, धारा 21 की उप-धारा (6)(c) के उपबन्धन (डी) के अंतर्गत ऋणदाताओं की श्रेणियां, यदि कोई हो,	श्रेणी(डी) के नाम- लागू नहीं
13. एक श्रेणी के अंतर्गत ऋणदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये विहित ऋणशोधनासमतता व्यवसायियों के नाम (विवेक श्रेणी के लिये तीन नाम)	लागू नहीं
14. (क) सुरक्षा प्रपत्र एवं (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों के विवरण, यदि उपलब्ध है।	वेबलिक : https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी बिक्री अधिनियम, नई दिल्ली पीठ-VI ने 20-11-2025 को **हनुंग फर्निचरिंग प्राइवेट लिमिटेड** की, एक निगमित ऋणशोधनासमतता समायोजन प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है (आईआरपी को आदेश प्राप्ति की तिथि 25-11-2025 है)। एतद्वारा **हनुंग फर्निचरिंग प्राइवेट लिमिटेड** के ऋणदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे 09-12-2025 को अथवा इससे पूर्व प्रतिदिन सं. 10 के समक्ष वर्णित पत्र पर अंतिम सम्मान्य व्यवसायी के पास, साक्ष्य के साथ अपने दावे प्रस्तुत करें। वित्तीय ऋणदातागण अपने दावा को साक्ष्य के साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा जमा करेंगे। समस्त अन्य ऋणदातागण साक्ष्य के साथ अपने दावा को व्यक्तितर रूप में, अक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जमा कर सकते हैं। एक वित्तीय ऋणदाता जो प्रतिदिन सं. 12 के समक्ष सूचीबद्धानुसार, एक श्रेणी से संबंधित है, उन्हें प्रपत्र सीए : लागू नहीं, में श्रेणी (श्रेणी का उल्लेख करें) के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये प्रतिदिन सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋणशोधनासमतता व्यवसायियों में से अपनी अधिनियमित के प्राधिकृत प्रतिनिधि का उल्लेख करना होगा। दावा के डुबितपूर्ण अथवा गमय साक्ष्य प्रस्तुत करने पर दक्षित किया जायेगा।

हस्ता /—
विमल कुमार
नैसर्स हनुंग फर्निचरिंग प्राइवेट लिमिटेड के अंतिम सम्मान्य व्यवसायी
IBBI/PA-002/IP-N00995/2020-2021/13236
एतद्वार कै है : 31-12-2026 तक
संभार पता : महेन्द्र रिटुक्मनियर सर्विसेज एलएलसी एच-376, पंचशील पार्क, नई दिल्ली- 110017
ईमेल : crip.hanung@gmail.com, maidvimal1@rediff.com

प्रपत्र ए

सार्वजनिक उद्घोषणा

[भारतीय ऋणपोधनासमतता एवं दिवालिया बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिये ऋणशोधनासमतता समायोजन प्रक्रिया) नियमावली 2016 के विधियम 6 के अंतर्गत]

सी के सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
(सीआईआरपी के अंतर्गत) के ऋणदाताओं के ध्यानार्थ

प्राचलिक विवरण

1. निगमित देनदार का नाम	सी के सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
2. निगमित देनदार के निगमितकरण की तिथि	09/08/2000
3. निगमितकरण, जिसके अंतर्गत निगमित देनदार निगमितकृत / चर्जित हो	आरसीआई - दिल्ली
4. निगमित देनदार की निगमित पहचान सं. /	U17250DL2000PTC106184
5. निगमित देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	सी-24, नू तल, गेटर कैलाश एक्स्प्रेस-1, नई दिल्ली-110048
6. निगमित देनदार के संबंध में ऋणशोधनासमतता आरंभ करने की तिथि	20-11-2025 (आईआरपी द्वारा आदेश प्राप्ति की तिथि : 25-11-2025)
7. ऋणशोधनासमतता समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न की अनुमति तिथि	19-05-2026
8. अंतिम सम्मान्य व्यवसायी के रूप में कार्यरत ऋणशोधनासमतता व्यवसायी का नाम तथा संबोधन संख्या	नाम : विमल कुमार संबोधन सं. : IBBI/PA-002/IP-N00995/2020-2021/13236
9. बैंड के साथ पंजीकृतानुसार, अंतिम सम्मान्य व्यवसायी का पता एवं ई-मेल	पता- बी 1104, रिडइज पार्क, सेक्टर 78, मेहता, उत्तर प्रदेश, 201801 ईमेल आईडी : maidvimal1@rediff.com
10. अंतिम सम्मान्य व्यवसायी के साथ पत्र-व्यवहार हेतु प्रयोग किए जाने के लिए पता एवं ई-मेल	संपत्ति पता : महेन्द्र रिटुक्मनियर सर्विसेज एलएलसी एच-376, पंचशील पार्क, नई दिल्ली- 110017 ईमेल : crip.kssoftware@gmail.com
11. दावा को जमा करने की अंतिम तिथि	09-12-2025
12. अंतिम सम्मान्य व्यवसायी द्वारा सुनिश्चिता, धारा 21 की उप-धारा (6)(c) के उपबन्धन (डी) के अंतर्गत ऋणदाताओं की श्रेणियां, यदि कोई हो,	श्रेणी(डी) के नाम- लागू नहीं
13. एक श्रेणी के अंतर्त ऋणदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये विहित ऋणशोधनासमतता व्यवसायियों के नाम (विवेक श्रेणी के लिये तीन नाम)	लागू नहीं
14. (क) सुरक्षा प्रपत्र एवं (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों के विवरण, यदि उपलब्ध है।	वेबलिक : https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी बिक्री अधिनियम, नई दिल्ली पीठ- VI ने 20-11-2025 को सी के सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड की, एक निगमित ऋणशोधनासमतता समायोजन प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है (आईआरपी को आदेश प्राप्ति की तिथि 25-11-2025 है)। एतद्वारा **सी के सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड** के ऋणदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे 09-12-2025 को अथवा इससे पूर्व प्रतिदिन सं. 10 के समक्ष वर्णित पत्र पर अंतिम सम्मान्य व्यवसायी के पास, साक्ष्य के साथ अपने दावे प्रस्तुत करें। वित्तीय ऋणदातागण अपने दावा को साक्ष्य के साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा जमा करेंगे। समस्त अन्य ऋणदातागण साक्ष्य के साथ अपने दावा को व्यक्तितर रूप में, अक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जमा कर सकते हैं। एक वित्तीय ऋणदाता जो प्रतिदिन सं. 12 के समक्ष सूचीबद्धानुसार, एक श्रेणी से संबंधित है, उन्हें प्रपत्र सीए : लागू नहीं, में श्रेणी (श्रेणी का उल्लेख करें) के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये प्रतिदिन सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋणशोधनासमतता व्यवसायियों में से अपनी अधिनियमित के प्राधिकृत प्रतिनिधि का उल्लेख करना होगा। दावा के डुबितपूर्ण अथवा गमय साक्ष्य प्रस्तुत करने पर दक्षित किया जायेगा।

हस्ता /—
विमल कुमार
नैसर्स सी के सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के अंतिम सम्मान्य व्यवसायी
IBBI/PA-002/IP-N00995/2020-2021/13236
एतद्वार कै है : 31-12-2026 तक
संभार पता : महेन्द्र रिटुक्मनियर सर्विसेज एलएलसी एच-376, पंचशील पार्क, नई दिल्ली- 110017
ईमेल : crip.kssoftware@gmail.com, maidvimal1@rediff.com



स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड

सीआईएन: U25208HR1983PLC015135

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट संख्या 918, सेक्टर 68, आईएमटी, फरीदाबाद – 121004

फोन नंबर: 91-129-4296500 | वेबसाइट: www.studds.com | ईमेल: secretarial@studds.com

30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्ध वर्ष हेतु अनअंकेक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

कंपनी के निदेशक मंडल ने 26 नवंबर, 2025 को संपन्न अपनी बैठक में, 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्ध वर्ष हेतु एकल एवं समेकित अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों को अनुमोदित किया है।

आप इस व्यूआर कोड को स्कैन करके या स्टॉक एक्सचेंज – बीएसई (www.bseindia.com) तथा एनएसई (www.nseindia.com) की वेबसाइट और कंपनी की वेबसाइट www.studds.com पर जाकर सीमित समीक्षा रिपोर्टों सहित सम्पूर्ण वित्तीय परिणाम देख सकते हैं।

कूटे स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड

हस्ता /—
सिद्धार्थ भूषण खुराना
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00172788

स्थान: फरीदाबाद

तारीख: 27 नवंबर, 2025

नोट: ऊपर दी गई जानकारी सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अधेराएँ) नियम 2015 के नियमन 47 के अनुसार है।



निम्बस् प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
(CIN - L74899DL1993PLC055470)
पंजीकृत कार्यालय: 1001-1006, 10वां तल, नारायण मंजिल, 23, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
ईमेल : nimbusingindia@gmail.com वेबसाइट : www.nimbustprojectsstd.com
फोन : 011-42878900, फैक्स : 011-22424291

भौतिक शेयरों के ट्रांसफर डीडस के पुनःदाखिल (Re-lodgement) हेतु विशेष विंडो संबंधी सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/ CIR/2025/97 दिनांक 02 जुलाई 2025 के अनुपालन में, कंपनी के शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि एक विशेष विंडो केवल उन ट्रांसफर डीडस के पुन-दाखिल किये जाने हेतु खोली गई है, जो कि 01 अप्रैल 2019 की समय-सीमा से पहले जमा किए गए थे और दस्तावेजों या प्रक्रिया में कमी या किसी अन्य कारण से अस्वीकृत/लीटाए गए/कार्यवाही से छूट गए थे। पुन-दाखिले संबंधी विंडो छ: महीने की अवधि अर्थात 07 जुलाई 2025 से 06 जनवरी 2026 तक के लिए खुली रहेगी। वे सभी शेयरधारक जो 31 मार्च 2021 (ट्रांसफ